

दरभंगा : मखाना हब

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2022 को दरभंगा के सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार की '10,000 नई एफपीओ योजना का गठन और संवर्धन' योजना के तहत दरभंगा स्थिति मखाना अनुसंधान केंद्र में एकदिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलति कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बदि

- इस कार्यशाला का उद्देश्य ज़िले में मखाना उत्पादक किसानों का सहकारी कृषक उत्पादक संगठन बनाकर दरभंगा को मखाना हब के रूप में विश्वपटल पर स्थापित करने हेतु उपायों पर वचिार करना है।
- गौरतलब है कि 'एक ज़िला एक उत्पाद' के अंतर्गत मखाना के उत्पादन एवं वकिस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये दरभंगा ज़िला को प्रधानमंत्री द्वारा एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इस अवसर पर सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाने से मखाना एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के वैश्विक व्यवसाय को बढ़ावा मलैगा।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के चित्तूरकूट में 6,865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ की गई थी।
- इसके तहत वर्ष 2020-21 में **FPOs** के गठन हेतु 2200 से अधिक **FPOs** उत्पादन क्लस्टरों का आवंटन किया गया है।
- इसके तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है-
- 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रती **FPO** के लिये 18.00 लाख रुपए का आवंटन।
- **FPO** के प्रत्येक किसान सदस्य को 2 हजार रुपए (अधिकतम 15 लाख रुपए प्रती एफपीओ) का इक्वटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **FPO** को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिये पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रती एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है।